

# Zec

## Chapter 9

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

|      |                       |         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| עֵין | לִיהוּוּה             | כִּי    | מִנְחָתוֹ             | וְדַמִּישְׁק          | חֲדָרָהּ              | בְּאֶרֶץ              | יְהוּוה               | דְּבַר-               | מִשָּׁא               | 1 |
| आँख  | के-लिए-यहोवा          | क्योंकि | विश्राम-उसका          | और-दमिश्क             | हद्राक-के             | में-देश               | यहोवा-का              | वचन-                  | भार                   |   |
|      | <a href="#">H3068</a> |         | <a href="#">H4496</a> | <a href="#">H1834</a> | <a href="#">H2317</a> | <a href="#">H0776</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H1697</a> |                       |   |
|      |                       |         |                       |                       |                       | יִשְׂרָאֵל:           | שְׁבָטֵי              | וְכָל                 | אָדָם                 |   |
|      |                       |         |                       |                       |                       | इस्राएल-के            | गोत्रों               | और-सब                 | आदमी-की               |   |
|      |                       |         |                       |                       |                       | <a href="#">H3478</a> | <a href="#">H7626</a> | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H0120</a> |   |

एक दुःख पूर्ण सन्देश। यह यहोवा का सन्देश हद्राक के देश और उसकी राजधानी दमिश्क के बारे में है: "इस्राइल के परिवार समूह के लोग ही एक मात्र वे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हर एक व्यक्ति सहायता के लिये उनकी ओर दख सकता है।

|                       |                       |         |                       |                       |       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| מָאֵד:                | חֲכִמָּה              | כִּי    | וְצִיּוֹן             | צֹר                   | בָּהּ | תִּגְבֹּל-            | חֲמַת                 | וְגַם-                | 2 |
| बहुत                  | बुद्धिमान             | क्योंकि | और-सीदोन              | सोर                   | उस-से | वह-सीमा-लगाती-है-     | हमात                  | और-भी-                |   |
| <a href="#">H3966</a> | <a href="#">H2449</a> |         | <a href="#">H6721</a> | <a href="#">H6865</a> |       | <a href="#">H1379</a> | <a href="#">H2574</a> | <a href="#">H1571</a> |   |

हद्राक के देश की सीमा हमात है और सोर तथा सीदोन भी यही करते हैं। वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं।

|                       |          |                       |                       |                       |             |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| כְּטִיט               | וְחַרוֹץ | כְּעֹפֶר              | כְּסֹף                | וְתַצְבֵּר-           | לָהּ        | מְצֹר                 | צֹר                   | וְתָבֵן               | 3 |
| जैसे-कीचड़            | और-सोना  | जैसे-धूल              | चाँदी                 | और-उसने-ढेर-लगाई-     | के-लिए-अपने | गढ़                   | सोर-ने                | और-बनाया              |   |
| <a href="#">H2916</a> |          | <a href="#">H6083</a> | <a href="#">H3701</a> | <a href="#">H6651</a> |             | <a href="#">H4692</a> | <a href="#">H6865</a> | <a href="#">H1129</a> |   |
|                       |          |                       |                       |                       |             |                       |                       | חוֹצוֹת:              |   |
|                       |          |                       |                       |                       |             |                       |                       | गलियों-की             |   |
|                       |          |                       |                       |                       |             |                       |                       | <a href="#">H2351</a> |   |

सोर एक किले की तरह बना है। वहाँ के लोगों ने चाँदी इतना इकट्ठा की है, कि वह धूलि के समान सुलभ है और सोना इतना सामान्य है जितनी मिट्टी।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| תֹּאכְלֵה:            | בָּאֵשׁ               | וְהָיָא               | חֵילָהּ               | בִּים                 | וְהָכָה               | וְרָשְׁנָה            | אֲדָנִי               | הִנֵּה                | 4 |
| वह-भस्म-हो-जाएगी      | में-आग                | और-वह                 | शक्ति-उसकी            | में-समुद्र            | और-वह-मारेगा          | वह-उसे-निर्धन-करेगा   | आदोनाई                | देखो                  |   |
| <a href="#">H0398</a> | <a href="#">H0784</a> | <a href="#">H1931</a> | <a href="#">H2428</a> | <a href="#">H3220</a> | <a href="#">H5221</a> | <a href="#">H3423</a> | <a href="#">H0136</a> | <a href="#">H2009</a> |   |

किन्तु हमारे स्वामी यहोवा यह सब ले लेगा। वे उसकी शक्तिशाली नौसेना को नष्ट करेगा और वह नगर आग से नष्ट होजाएगा!

|                       |          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| הִבִּישׁ              | כִּי-    | וְעַקְרוֹן            | מָאֵד                 | וְתַחִיל              | וְעַזָּה              | וְתִירָא              | אֲשְׁקֵלוֹן           | תִּרְא                | 5 |
| वह-लज्जित-हुई         | क्योंकि- | और-एक्रोन             | बहुत                  | और-वह-काँपेगी         | और-अज्ज़ाह            | और-वह-डरेगी           | अशकेलोन               | वह-देखेगी             |   |
| <a href="#">H0954</a> |          | <a href="#">H6138</a> | <a href="#">H3966</a> |                       | <a href="#">H5804</a> | <a href="#">H3372</a> | <a href="#">H0831</a> | <a href="#">H7200</a> |   |
|                       |          | תִּשָּׁב:             | לֹא                   | וְאֲשְׁקֵלוֹן         | מֵעַזָּה              | מֶלֶךְ                | וְאַבָּר              | מִבְּטָח              |   |
|                       |          | वह-बसेगी              | नहीं                  | और-अशकेलोन            | से-अज्ज़ाह            | राजा                  | और-नष्ट-होगा          | आशा-उसकी              |   |
|                       |          | <a href="#">H3427</a> | <a href="#">H3808</a> | <a href="#">H0831</a> | <a href="#">H5804</a> | <a href="#">H4428</a> | <a href="#">H0006</a> | <a href="#">H4007</a> |   |

अशकेलोन में रहने वाले लोग इन घटनाओं को देखेंगे और वे डरेंगे। अज्जा के लोग भय से काँप उठेंगे और एक्रोन के लोग सारी आशाएँ छोड़ देंगे, जब वे उन घटनाओं को घटित होते देखेंगे। अज्जा में कोई राजा बचा नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति अब अशकेलोन में नहीं रहेगा।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| פְּלִשְׁתִּים:        | גָּמֹז                | וְהַכְרַתִּי          | בְּאֲשֻׁדָד           | מִמְזַר               | וְיָשָׁב              | 6 |
| पलिशतियों-का          | घमंड                  | और-मैं-काट-दूँगा      | में-अशदोद             | वर्णसंकर              | और-बसेगा              |   |
| <a href="#">H6430</a> | <a href="#">H1347</a> | <a href="#">H3772</a> | <a href="#">H0795</a> | <a href="#">H4464</a> | <a href="#">H3427</a> |   |

अशदाद में लोग यह भी नहीं जानेंगे कि उनके अपने पिता कौन हैं मैं गर्विले पलिशती लोगों को पूरी तरह नष्ट कर दूँगा।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| הוא                   | גם-                   | ונשאר                 | שניו                  | מבין                  | ושקצו                 | מפיו                  | דמיו                  | והסרו                 | 7 |
| वह                    | भी-                   | और-बचेगा              | दोनों-उसके            | से-बीच                | और-घृणित-वस्तुएँ-उसकी | से-मुँह-उसके          | खून-उसका              | और-मैं-हटाऊँगा        |   |
| <a href="#">H1931</a> | <a href="#">H1571</a> | <a href="#">H7604</a> | <a href="#">H8127</a> | <a href="#">H0996</a> | <a href="#">H8251</a> | <a href="#">H6310</a> | <a href="#">H1818</a> | <a href="#">H5493</a> |   |

כיבוסי:      ועקרון      ביהודה      כאלה      והיה      לאלהינו  
 जैसे-यबूसी      और-एकरोन      में-यहूदा      जैसे-प्रधान      और-वह-होगा      के-लिए-एलोहीम-हमारे

[H2983](#)      [H6138](#)      [H3063](#)           [H1961](#)      [H0430](#)

वे रक्त सहित माँस को या कोई भी वर्जित भोजन नहीं खायेंगे। कोई भी बचा पलिशती हमारे राष्ट्र का अंग बनेगा। वे यहूदा में एक नया परिवार समूह होंगे। एकरोन के लोग हमारे लोगों के एक भाग होंगे जैसा कि यबूसी लोग बन गए। मैं अपने देश की रक्षा करूँगा।

|       |             |                       |                       |                |                       |                |                       |   |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|
| עליהם | יעבר        | ולא-                  | ומשב                  | מעבר           | מצבה                  | לביתי          | והנתי                 | 8 |
| पर-उन | वह-गुज़रेगा | और-नहीं-              | और-से-लौटनेवाले       | से-गुज़रनेवाले | चोकी-से               | के-लिए-घर-मेरे | और-मैं-डेरा-डालूँगा   |   |
|       |             | <a href="#">H3808</a> | <a href="#">H7725</a> |                | <a href="#">H4675</a> |                | <a href="#">H2583</a> |   |

ס      בעיני:      ראיתי      עתה      כי      נגש      עוד  
 |      में-आँखों-मेरी      मैंने-देखा-है      अब      क्योंकि      अत्याचारी      फिर

[H7200](#)      [H6258](#)      [H5065](#)      [H5750](#)

मैं शत्रु की सेनाओ को यहा से होकर नहीं निकल ने दूँगा। मैं उन्हें अपने लोगों को और अधिक चाट नहीं पहुचाने दूँगा। मैंने अपनी आँखों से देखा कि अतित में मेरे लोगों ने कितना कष्ट उठाया।”

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| יבוא                  | מלכה                  | הנה                   | ירושלם                | בת                    | הריעי                 | ציון                  | בת-                   | מאד                   | גילי                  | 9 |
| वह-आता-है             | राजा-तेरा             | देखो                  | यरूशलेम-की            | बेटी                  | जयजयकार-कर            | सिय्योन-की            | बेटी-                 | बहुत                  | खुशी-मना              |   |
| <a href="#">H0935</a> | <a href="#">H4428</a> | <a href="#">H2009</a> | <a href="#">H3389</a> | <a href="#">H1323</a> | <a href="#">H7321</a> | <a href="#">H6726</a> | <a href="#">H1323</a> | <a href="#">H3966</a> | <a href="#">H1523</a> |   |

עיר      ועל-      חמור      על-      ורכב      עני      הוא      ונשע      צדיק      לך  
 बछेड़े      और-पर-      गधे      पर-      और-सवार-होता-हुआ      दीन      वह      और-उद्धार-पाया-हुआ      धर्मी      तेरे-लिए

[H5895](#)      [H2543](#)      [H7392](#)      [H6041](#)      [H1931](#)      [H3467](#)      [H6662](#)

אתנות:  
 गद्दों-के      पुत्र-  
[H0860](#)

सिय्योन, आनन्दित हो! यरूशलेम के लोगों आनन्दघोष करो! देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है! वह विजय पानेवाला एक अच्छा राजा है। किन्तु वह विनम्र है। वह गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है।

|                       |                       |                       |                       |                       |          |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| ודבר                  | מלחמה                 | קשת                   | ונכרתה                | מירושלם               | וסוס     | מאפרים                | רכב                   | והכרתיו               | 10 |
| और-वह-बोलेगा          | युद्ध-की              | धनुष                  | और-काटी-जाएगी         | से-यरूशलेम            | और-घोड़ा | से-एप्रैम             | रथ                    | और-मैं-काट-दूँगा-     |    |
| <a href="#">H1696</a> | <a href="#">H4421</a> | <a href="#">H7198</a> | <a href="#">H3772</a> | <a href="#">H3389</a> |          | <a href="#">H0669</a> | <a href="#">H7393</a> | <a href="#">H3772</a> |    |

שלום      לגוים      ומשלו      מים      ער-      ים      ומנהר      ער-      ארץ:  
 शांति      को-जातियों      और-शासन-उसका      से-समुद्र      तक-      समुद्र      और-से-नदी      तक-      पृथ्वी-के      छोरों-

[H7965](#)      [H3220](#)      [H5704](#)      [H3220](#)      [H5704](#)      [H5104](#)      [H3220](#)      [H5704](#)      [H0776](#)

राजा कहता है, “मैंने एप्रैम में रथों को और यरूशलेम में घुडसवारों को नष्ट किया। मैंने युद्ध में प्रयोग किये गये धनुषों को नष्ट किया।” अन्य राष्ट्रों ने शान्ति—संधि की बातें सुनीं। वह राजा सागर से सागर तक राज्य करेगा। वह नदी से लेकर पृथ्वी के दूरतम सेथानों पर राज्यकरेगा।

|     |    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |        |    |
|-----|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|--------|----|
| גם- | את | בדם-                  | בריתי                 | שלחתי                 | אסיריה                | מבור                  | אין                   | מים  | בו:    | 11 |
| भी- | तू | में-खून-              | वाचा-तेरी-के          | मैंने-भेजा            | बंदियों-तेरे          | से-गढ़दे              | नहीं-था               | पानी | में-उस |    |
|     |    | <a href="#">H1818</a> | <a href="#">H1285</a> | <a href="#">H7971</a> | <a href="#">H0615</a> | <a href="#">H0369</a> | <a href="#">H4325</a> |      |        |    |

यरूशलेम हमने अपनी वाचा को खून से मुहरबन्द किया अतः मैंने तुम्हारे बन्दियों को स्वतन्त्र कर दिया, तुम्हारे लोग उस सूने बन्दिगृह में अब नहीं रह गए हैं।

|      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |    |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|
| שובו | לבצרון                | אסירי                 | התקנה                 | גם-                   | היום                  | מגיד                  | משנה                  | אשיב                  | לך:  | 12 |
| लौटी | की-ओर-गढ़             | बंदी                  | आशा-के                | भी-                   | आज                    | जो-बताता-हूँ          | दुगना                 | मैं-लौटाऊँगा          | तुझे |    |
|      | <a href="#">H1225</a> | <a href="#">H0615</a> | <a href="#">H1285</a> | <a href="#">H1571</a> | <a href="#">H3117</a> | <a href="#">H5046</a> | <a href="#">H4932</a> | <a href="#">H7725</a> |      |    |

बन्दियों, अपने घर जाओ! अब तुम्हारे लिये कुछ आशा का अवसर है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ!

13 כִּי- דְרָכָיו לִי יְהוָה אֶפְרַיִם מְלֹאמֵי קִשָּׁת דְּחָוָה לִי כִּי- דְרָכָיו מֵינֶ-זְרוּקָא יַעֲרָרְתִּי וְעִרְרָתִי בְנֵי-וֹת סִיּוּן 13  
 H6726 H5782 H0669 H4390 H7198 H3063 H1869

עַל- בְּנֵי-וֹת וְשִׁמְתִּי וְיָנִי וְקָרַב נְבוֹרִ: וְשִׁמְתִּי וְיָנִי וְקָרַב נְבוֹרִ:  
 H1368 H2719 H3120

यहुदा, मैं तम्हारा उपयोग एक धनुष—जैसा करूँगा। एप्रैम, मैं तम्हारा उपयोग बाणों जैसा करूँगा। इस्राइल, मैं तुम्हारा उपयोग यूनान से लडने के लिए दृढ़ तलवार जैसा करूँगा।

14 וַיְהוָה עָלֵיהֶם וַיְרֹאָה וַיִּצָּא כִּבְרָק חָצֹוּ וְאֲדָנִי יְהוָה בְּשׁוֹפָר 14  
 H7782 H3069 H0136 H2671 H3318 H7200 H3068

וַיִּתְקַע וְהָלַךְ בְּסַעֲרוֹת תִּימָן: וַיִּתְקַע וְהָלַךְ בְּסַעֲרוֹת תִּימָן:  
 H8486 H1980 H8628

यहोवा उसके सामने प्रकट होगा और वह अपने बाण बिजली की तरह चलायेगा। यहोवा, मेरे स्वामी तरही बजाएगा और सेना मरूभूमि के तूफान के समान आगे बढ़ेगी।

15 יְהוָה יְהוָה צְבָאוֹת וַיִּגַּן עָלֵיהֶם וַאֲכָלוּ וַיִּבְשְׁשׁוּ אֲבָנֵי-קָלַע וּשְׁתָּו 15  
 H8354 H0068 H3533 H0398 H1598 H3068

וְהָמוּ כְּמוֹ-יָן וְהָמוּ כְּמוֹ-יָן וְהָמוּ כְּמוֹ-יָן וְהָמוּ כְּמוֹ-יָן  
 H4196 H2106 H4219 H4390 H3196 H3644 H1993

सर्वशक्तिमान यहोवा उनकी रक्षा करेगा। सैनिक पत्थर और गुलेल का उपयोग शत्रु को पराजित करने में करेंगे। वे अपने शत्रुओं का खून बहायेंगे, यह दाखमधु जैसा बहेगा। यह वेदी के कानों पर फेंके गए खून जैसा होगा।

16 וַהֲוִישִׁעֵם יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם בַּיּוֹם הַהוּא כִּצְאֹן עָמוּן כִּי אֲבָנֵי-גֹזֶר 16  
 H5145 H0068 H6629 H1931 H3117 H0430 H3068 H3467

מִתְנוֹסְסוֹת עַל- אֲדָמָתוֹ: מִתְנוֹסְסוֹת עַל- אֲדָמָתוֹ:  
 H0127 H5264

उस समय, उनके परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को वैसे ही बचाएगा, जैसे गडेरिया भेड़ों को बचाता है। वे उनके लिये बहुत मूल्यावान होंगे। वे उनके हाथों में जगमगाते रत्न— से होंगे।

17 כִּי מָה-טוֹבוֹ וּמָה-יָפִינוּ דְּגָנוֹ בְּחַוָּרִים וְתוֹרוֹשׁ 17  
 H8492 H0970 H1715 H3308 H4100 H2898 H4100

יְנוּבֵב בְּתָלוֹת: יְנוּבֵב בְּתָלוֹת:  
 H1330 H5107

हर एक चीज अच्छी और सुन्दर होगी! वहाँ अदभुत फसल होगी, किन्तु वहाँ केवल अन्न और दाखधु नहीं होगी। वहाँ युवक युवतियाँ होंगी!